

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 जनवरी 2014—पौष 25, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2014

क्र. 412-20-इक्कीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2014 (क्रमांक 06 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 6 OF 2014.

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 4) BILL, 2014

A Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of the March, 2003 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 4), Act, 2014.

Issue of Rs. 4,24,79,26,838 out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain excess expenditure for the year ended on 31st March, 2003.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. Four hundred twenty four crores seventy nine lakhs twenty six thousand eight hundred and thirty eight shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the financial year ended on the 31st day of March, 2003 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act. Shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ended on the 31st day of March, 2003.

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

(1) Number of Vote	(2) Services and Purposes	(3) Excess		
		Voted Rs.	Charged Rs.	Total Rs.
Public Finance	Capital	0	3,75,43,03,328	3,75,43,03,328
Debt				
21	Housing and Environment Deptt. Capital	0	33,207	33,207
23	Water Resources Deptt. Capital	0	80,985	80,985
24	Public Work R&B Revenue	36,68,40,899	0	36,68,40,899
44	Higher Education Revenue	0	27,00,000	27,00,000
53	Urban Administration and Development-Urban Bodies Revenue	31,000	0	31,000
67	Public Work Building Revenue	12,19,30,882	20,06,537	12,39,37,419
	Total ..			
	{ Revenue ..	48,88,02,781	47,06,537	49,35,09,318
	{ Capital ..	0	3,75,44,17,520	3,75,44,17,520
	Grand Total ..	48,88,02,781	3,75,91,24,057	4,24,79,26,838

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of Article 204 (1) of the Constitution of India, read with article 205 thereof, to provide for the appropriation out of the consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh of the moneys required to meet the expenditure incurred in excess of the appropriation charged on the fund and grants made by the Legislative Assembly for the expenditure of the State Government for the financial year ended on the 31st day of March, 2003.

2. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated, the 8th January, 2014.

JAYANT MALAIYA
Member-in-Charge.